



प्रेस विज्ञप्ति

ब्यूरो के प्रमुख

23 नवंबर, 2020

**आईसीएसआई उत्तर पूर्वी राज्यों के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए**

आईसीएसआई ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण सूचकांकों के रूप में से एक, शिक्षा, का संज्ञान लेते हुए, क्षेत्र के युवाओं के लिए विभिन्न रचनात्मक कदम पेश किए, जो उन्हें पेशेवर के रूप से तैयार करेगा और उन्हें रोजगार कुशल बनायेगा।

दूरी के अवरोध को हटाने और क्षेत्र के छात्रों के लिए बेहतर प्रावधानों की सुविधा के लिए, ICSI ने उत्तर पूर्वी राज्यों से कंपनी सचिव पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करने वाले छात्रों के लिए 50% शुल्क माफ किया है और सभी आठ राज्यों में ICSI अध्ययन केंद्रों की स्थापना की है।

इन ठोस उपायों के अलावा, आईसीएसआई ने हाल ही में आईसीएसआई अकादमिक सहयोग पहल के तहत निम्नलिखित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है:

- आईसीएसआई विश्वविद्यालय सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम
- सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय गंगटोक, सिक्किम
- एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश
- असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम
- असम रॉयल ग्लोबल, गुवाहाटी, असम
- मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर

इस MoU 'का उद्देश्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में संसाधनों के आदान-प्रदान और भागीदारी के साथ संयुक्त शैक्षिक अनुसंधान, संयुक्त कार्यशालाओं, व्यावसायिक विकास और संकाय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्रों में एक व्यापक साझेदारी की सुविधा है। सहयोग इन संस्थानों के छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों के कौशल का विकास करने के साथ-साथ ज्ञान प्रदान करने में मदद करेगा।

इस क्षेत्र में इस तरह के सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए, सीएस आशीष गर्ग, अध्यक्ष, आईसीएसआई, ने कहा, "आईसीएसआई ने हमेशा सरकार की त्वरित और समावेशी विकास की सरकार की पहल का समर्थन किया है। आईसीएसआई पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति अकादमिक संस्थानों के साथ भागीदारी करके बढ़ा रहा है। इससे संस्थानों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कार्यकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले

दूरभाष: 011-4534 1022

ई-मेल: preeti.banerjee@icsi.edu